



गुरुवार से बदलेगी बड़ा चौराहा पर ट्रैफिक की चाल

-मेट्रो के भूमिगत सेक्शन के निर्माण के लिए होगा डायवर्जन

-16 सितंबर से स्थाई रूप से प्रभावी होगा ट्रैफिक डायवर्जन

-ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर यातायात पुलिस का ट्रायल सफल

-कई जगहों पर होगा वन वे और लगाई जाएंगी बैरिकेडिंग

कानपुर: बड़ा चौराहे पर मेट्रो के भूमिगत सेक्शन के निर्माण के लिए गुरुवार को डायवर्जन लागू किया जाएगा। डायवर्जन के लिए की गई प्लानिंग का दो दिन तक ट्रायल चला जो कि पूरी तरह सफल रहा। अब इसे लागू करने की तैयारी है। ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने के बाद मेट्रो कारपोरेशन को काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। इससे निर्माण कार्य अपनी स्पीड में चलता रहेगा।

मेट्रो के निर्माण कार्य की स्पीड कम न हो और जल्द से जल्द मेट्रो दौड़ने लगे इसके लिए मेट्रो कारपोरेशन और पुलिस कमिश्नरेंट पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बड़े चौराहे पर भूमिगत सेक्शन के निर्माण के लिए बड़ा चौराहा पर गुरुवार 16.09.2021 से स्थाई रूप से ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

कानपुर मेट्रो के भूमिगत सेक्शन के निर्माण के लिए दिनांक 13.09.2021 सोमवार एवं 14.09.2021 मंगलवार को बड़ा चौराहा पर ट्रैफिक डायवर्जन का ट्रायल किया गया। ट्रायल की सफलता को देखते हुए, यातायात पुलिस गुरुवार दिनांक 16.09.2021 को सुबह 6 बजे से डायवर्जन प्लान को स्थाई रूप से लागू करने जा रही है। यह डायवर्जन आने वाले लगभग 2 सालों तक जारी रहेगा। इसके लिए मेट्रो कारपोरेशन द्वारा जगह-जगह साइनेज और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

बड़ा चौराहा पर यह है प्रस्तावित प्लान

-बड़ा चौराहा भूमिगत मेट्रो स्टेशन, जेड स्क्वायर मॉल से डीसीबी बैंक के बीच प्रस्तावित है, इतनी दूरी में मेट्रो द्वारा बैरिकेडिंग की जाएगी।

-फूलबाग की ओर आने वाले वाहन सीधे बड़ा चौराहा की ओर आ सकते हैं। इन वाहनों के लिए बैरिकेडिंग के समानान्तर लगभग 15 फीट की जगह छोड़ी जाएगी। इस रास्ते में सिर्फ हल्के वाहन ही चल सकेंगे।

-वहीं, नवीन मार्केट की ओर से आने वाले वाहन बड़ा चौराहा से बाईं ओर मुड़कर चेतना चौराहे और आयकर विभाग कार्यालय से होते हुए मेघदूत पहुँच सकते हैं।

मेट्रो निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ते हुए बड़े चौराहे तक पहुंच गया है इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान का दो दिवसीय ट्रायल सफल रहा। अब इसे 16 सितंबर की सुबह छह बजे से लागू किया जाएगा।

बीबीजीटीएस मूर्ति
डीसीपी ट्रैफिक व पश्चिम जोन।